

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 04]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

सा.का नि. 04(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 कहा जा सकता है।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में कॉलम (10) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, नामतः :—

“50: मिश्रित पद्धति {अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी)} / पदोन्नति से; तथा

50: प्रतिनियुक्ति / आमेसन से”

[फा. सं. 23011/43/2011-पी.टी.]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

नोट—मुख्य नियम को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300(अ), दिनांक : 25 अप्रैल, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2014

G.S.R. 04(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Central Government hereby makes the following amendments to the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Administrative Officer (Grade II) Recruitment Rules, 2014, namely :-

1. (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Administrative Officer (Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Administrative Officer (Grade II) Recruitment Rules, 2014, for the entries under column (10), the following entries shall be substituted, namely: —
“50% by composite method {deputation including short-term contract (ISTC)}/promotion; and
50% by deputation / absorption”.

[F. No. 23011/43/2011-PT]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th April, 2014 *vide* notification number G.S.R. 300(E), dated the 25th April, 2014